



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2018/फाल्गुन 28, 1939

No. 31]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2018/PHALGUNA 28, 1939

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

आ.अ. 33(अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (2) के अनुसरण में, सामान्य सूचना के लिए निम्नलिखित प्रकाशित किया जाता है:-

फार्म 7 ब

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची



[नियम 10(1) देखें]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी:-

1	लेखराम साहू		मकान नम्बर-163, ग्राम-सिलौटी, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)	इण्डियन नेशनल काँग्रेस
2.	सरोज पांडेय		1/ए स्ट्रीट, 7/बी, फेज-1, मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई (छ.ग.)	भारतीय जनता पार्टी

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर):-

शून्य

(iii) अन्य अभ्यर्थी:-

शून्य

स्थान: रायपुर

तारीख: 15 मार्च 2018

ह. /

रिटर्निंग ऑफिसर

**फार्म 7 ख**  
**निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**  
**[नियम 10(1) देखें]**  
**निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**

झारखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)

**(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी:-**

1	धीरज प्रसाद साहू		थाना पथ, पो.+थाना-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा, झारखण्ड।	इण्डियन नेशनल काँग्रेस
2	प्रदीप कुमार सोनथालिया		चंचानी कॉलोनी, नागनगर, धरईया, जिला-धनबाद, झारखण्ड।	भारतीय जनता पार्टी
3	समीर उराँव		पोस्ट-विशुनपुर, करमटोली, जिला- गुमला, झारखण्ड।	भारतीय जनता पार्टी

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर):-

शून्य

(iii) अन्य अभ्यर्थी:-

शून्य

स्थान: रांची  
 तारीख: 15 मार्च 2018

ह. /  
 रिटर्निंग ऑफिसर

## फार्म 7 ब

## निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखें]

## निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)

## (i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी:-

1	जी.सी. चंद्रशेखर		नं. 206, 15 'बी' क्रोस, वेस्ट ऑफ कोर्ड रोड, दूसरा स्टेज, दूसरा फेज, महालक्ष्मीपुरम, बैंगलोर-560086	इण्डियन नेशनल काँग्रेस
2	बी.एम. फारुख		नं. 8-112(1), कट्टीपल्ला, आठवां ब्लाक, मैंगलोर-575030	जनता दल (सेक्यूलर)
3	राजीव चंद्रशेखर		नं. 408, दूसरा क्रोस, तीसरा ब्लाक, कोरामंगल, बंगलुरु-560034	भारतीय जनता पार्टी
4	सैय्यद नासीर हुसैन		नं. 164, दूसरा क्रोस, एक्स-सर्विसमेन कॉलोनी, सी.बी. बेल्लारी-583102,	इण्डियन नेशनल काँग्रेस
5	डॉ एल. हनुमन्तथैय्या		नं. 207ए तीसरा डी क्रोस, दूसरा ब्लाक तीसरा स्टेज, बसावेश्वरा नगर, बैंगलोर-560079	इण्डियन नेशनल काँग्रेस

## (ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर):-

शून्य

## (iii) अन्य अभ्यर्थी:-

शून्य

स्थान: बंगलुरु

तारीख: 15 मार्च 2018

ह. /

रिटर्निंग ऑफिसर

**फार्म 7 ख****निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची****[नियम 10(1) देखें]****निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**

तेलंगाना विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)

**(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी:-**

1	प्रकाश बंदा		म.नं-16-3-302, शांति नगर, सुभाष रोड, वारंगल-506002	तेलंगाना राष्ट्र समिति
2	बादगुल लिंगैया यादव		म.नं.-1-1-186/5/1, जे.जे. नगर, सूर्यपेट	तेलंगाना राष्ट्र समिति
3	पी. बलराम		म.नं-8-2-333/1/A/G1, विष्णु ब्लयु लोटस, रोड नं-3, बंजारा हिल्लस, हैदराबाद-500034	इण्डियन नेशनल काँग्रेस
4	संतोष कुमार जोगीनीपल्ली		विला नं 36, अपर्णा आर्किड, कोंडापुर, हैदराबाद-500084	तेलंगाना राष्ट्र समिति

**(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर):-**

शून्य

**(iii) अन्य अभ्यर्थी:-**

शून्य

स्थान: हैदराबाद

तारीख: 15 मार्च 2018

ह. /






रिटर्निंग ऑफिसर






**फार्म 7 ख****निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची****[नियम 10(1) देखें]****निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)

**(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी:-**

1	अनिल अग्रवाल		के.एफ.-91, कविनगर गाजियाबाद	भारतीय जनता पार्टी
2	अनिल कुमार जैन		डी-244, अनुपम गार्डन सैदुलालाजाब, न्यु दिल्ली-110068	भारतीय जनता पार्टी
3	अरुण जेटली		6, तापस बँगलाज, नियर औड़ा गार्डन, प्रह्लाद नगर सेक्टर-2, वेजलपुर, अहमदाबाद सिटी-380051 (गुजरात)	भारतीय जनता पार्टी
4	अशोक बाजपेयी		151 जनता कुटीर धर्मशाला रोड, हरदोई (उ.प्र.)	भारतीय जनता पार्टी
5	कान्ता कर्दम		50, तेजगढ़ी, मेरठ-250004	भारतीय जनता पार्टी
6	जी0 वी0 एल0 नरसिम्हाराव		फ्लैट नं0-2021, सेक्टर-सी, पॉकेट-2, वसन्त कुँज, नई दिल्ली-110070	भारतीय जनता पार्टी

7	बच्चन जया अमिताभ		'प्रतीक्षा' 10 नार्थ साउथ रोड जे.वी.पी.डी. स्कीम जुहू, मुम्बई- 400049	समाजवादी पार्टी
8	भीमराव अम्बेडकर		54/1 बजरिया पक्का तालाब इटावा उ.प्र.	बहुजन समाज पार्टी
9	विजय पाल सिंह तोमर		म.न.-35/1 नेहरू रोड मेरठ	भारतीय जनता पार्टी
10	सकलदीप		ग्राम-विहरा हरपुर, पोस्ट-विहरा हरपुर, थाना नगरा, तहसील-बेल्थला रोड, जिला-बलिया	भारतीय जनता पार्टी
11	हरनाथ सिंह यादव		शान्तिनगर, एटा, उत्तर प्रदेश	भारतीय जनता पार्टी

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर):-

शून्य

(iii) अन्य अभ्यर्थी:-

शून्य

स्थान: लखनऊ

तारीख: 15 मार्च 2018

ह. /

रिटर्निंग ऑफिसर

**फार्म 7 ख**  
**निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**  
**[नियम 10(1) देखें]**  
**निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**

पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी:-

1	डॉ अभिषेक मनु सिंघवी		डी-11, शास्त्री नगर, जोधपुर राजस्थान-342003	इण्डियन नेशनल काँग्रेस
2.	अबीर रंजन बिस्वास		ग्राम एवं पी.ओ.-छपरी, पी.एस.-हंसखली, नाडीया-741151	ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस
3.	मो. नदीमुल हक		12, दरगाह रोड, कोलकाता-700017	ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस
4.	रवीन देव		एफ.डी-202, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
5.	डॉ शांतनु सेन		20, हरे क्रिस्तो सेट लेन, ब्लाक-एच, फ्लैट-2, कोलकाता-700050	ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस
6.	सुभाशीष चक्रवर्ती		39, महात्मा गांधी रोड, पी.ओ. एवं पी.एस. हरिदेवपुर, कोलकाता-700082	ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय

राजनैतिक दलों को छोड़कर):-

शून्य

(iii) अन्य अभ्यर्थी:-

शून्य

स्थान: कोलकाता  
तारीख: 15 मार्च 2018

ह. /  
रिटर्निंग ऑफिसर

[सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2018]

आदेश से,  
सुमन कुसार दास, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**New Delhi, the 19<sup>th</sup> March, 2018

**O.N. 33(E).**—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information: -



**Form 7B****LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

[See rule 10 (1)]

**List of contesting candidates**Election to the Council of States by the elected Members of the **Chhattisgarh** Legislative Assembly.

S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation
1.	2.	3.	4.

(i) **CANDIDATES OF RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES: -**

1.	Lekhram Sahu		House No. 163, Village- Silauti, Tehsil- Kurud, Distt.- Dhamtari, Chhattisgarh.	Indian National Congress
2.	Saroj Pandey		1/A Street, 7/B Phase-1, Maitri Nagar, Risali, Bhilai, Chhattisgarh	Bhartiya Janata Party

(ii) **CANDIDATES OF REGISTERED POLITICAL PARTIES (OTHER THAN RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES):-.....Nil**(iii) **OTHER CANDIDATES: -.....Nil**

PLACE: Raipur

Sd/

DATE: 15<sup>th</sup> March, 2018

RETURNING OFFICER



**Form 7B**  
**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**




[See rule 10 (1)]

**List of contesting candidates**

Election to the Council of States by the elected Members of the **Jharkhand** Legislative Assembly.

S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation
1.	2.	3.	4.

(i) **CANDIDATES OF RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES:**

1.	Dhiraj Prasad Sahu		Thana Path, P.O. & P.S. Lohardaga Distt- Lohardaga, Jharkhand	Indian National Congress
2.	Pradeep Kumar Sonthalia		Chanchani Colony Nagnagar, Dhaiya, Dist.- Dhanbad, Jharkhand	Bhartiya Janata Party
3.	Samir Oraon		AT & P.O. Bishunpur, Karamtoli, Distt.- Gumla, Jharkhand	Bhartiya Janata Party

(ii) **CANDIDATES OF REGISTERED POLITICAL PARTIES (OTHER THAN RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES) :-.....Nil**

(iii) **OTHER CANDIDATES:** - ..... Nil

PLACE: Ranchi

DATE: 15<sup>th</sup> March, 2018






Sd/

RETURNING OFFICER

**Form 7B****LIST OF CONTESTING CANDIDATES****[See rule 10 (1)]****List of contesting candidates**Election to the Council of States by the elected Members of the **Karnataka** Legislative Assembly.

S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation
1.	2.	3.	4.

(i) **CANDIDATES OF RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES: -**

1.	G. C. Chandrasekhar		No. 206, 15 <sup>th</sup> 'B' Cross, West of Chord Road, 2 <sup>nd</sup> Stage, 2 <sup>nd</sup> Phase, Mahalakshmiipuram, Bangalore-560086	Indian National Congress
2.	B. M. Farooq		No.8-112(1), Kattipalla, 8 <sup>th</sup> Block, Mangalore-575030	Janata Dal (Secular)
3.	Rajeev Chandrasekhar		No. 408, 2 <sup>nd</sup> Cross, 3 <sup>rd</sup> Block, Koramangala, Bengaluru-560034	Bhartiya Janata Party
4.	Syed Nasir Hussain		No.164, 2 <sup>nd</sup> Cross, Ex-Servicemen Colony, C.B. Bellary-583102, Bellary District	Indian National Congress
5.	Dr. L. Hanumanthaiah		No. 207A, 3 <sup>rd</sup> D Cross, 2 <sup>nd</sup> Block, 3 <sup>rd</sup> Stage, Basaveshwara Nagar, Bangalore-560079	Indian National Congress

(ii) **CANDIDATES OF REGISTERED POLITICAL PARTIES (OTHER THAN RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES) :-** ..Nil(iii) **OTHER CANDIDATES :-** ..Nil

PLACE: Bengaluru

DATE: 15<sup>th</sup> March, 2018





Sd/

RETURNING OFFICER

**Form 7B****LIST OF CONTESTING CANDIDATES****[See rule 10 (1)]****List of contesting candidates**Election to the Council of States by the elected Members of the **Telangana** Legislative Assembly.

<b>S. No.</b>	<b>Name of Candidate</b>	<b>Address of Candidate</b>	<b>Party Affiliation</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>

(i) CANDIDATES OF RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES: -

1.	Prakash Banda		H.No.16-3-302, Shanthi Nagar, Subash Road, Warangal-506002	Telangana Rashtra Samithi
2.	Baduguna Lingaiah Yadav		H.No.-1-1-186/5/1, J.J. Nagar, Suryapet	Telangana Rashtra Samithi
3.	P. Balram		H.No.-8-2-333/1/A/G1, Vishnu Blue Lotus, Road No. 3 Banjara Hills, Hyderabad-500034	Indian National Congres
4.	Santhosh Kumar Joginipally		Villa No. 36, Aparna Orchids, Kondapur, Hyderabad-500084	Telangana Rashtra Samithi

(ii) CANDIDATES OF REGISTERED POLITICAL PARTIES (OTHER THAN RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES) :-.....Nil(iii) OTHER CANDIDATES: - ... Nil

PLACE: Hyderabad

DATE: 15<sup>th</sup> March, 2018

Sd/

RETURNING OFFICER

**Form 7B****LIST OF CONTESTING CANDIDATES**





[See rule 10 (1)]

**List of contesting candidates**Election to the Council of States by the elected Members of the **Uttar Pradesh** Legislative Assembly.

S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation
1.	2.	3.	4.

(i) **CANDIDATES OF RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES: -**

1.	Anil Agarwal		K F-91, Kavinagar, Ghaziabad	Bharatiya Janata Party
2.	Anil Kumar Jain		D-244 Anupam Garden Saidullajab, New Delhi-68	Bharatiya Janata Party
3.	Arun Jaitley		6 Tapas Bunglows Nr. Auda Garden, Prahlad Nagar, Sec-2 Vejalpur- Ahmedabad City- 380051	Bharatiya Janata Party
4.	Ashok Bajpai		151- Janta Kuteer, Dharmshala Road, Hardoi, UP	Bharatiya Janata Party
5.	Kanta Kardam		50, Tejgadhi, Meerut-250004	Bharatiya Janata Party
6.	GVL Narasimha Rao		Flat No- 201, Sec-C, Pocket-2 Vasant Kunj, New Delhi-70	Bharatiya Janata Party
7.	Bachchan Jaya Amitabh		'Prateeksha' 10 North South Road, JVPD Scheme, Juhu. Mumbai-400049	Samajwadi Party

8.	Bhimrao Ambedkar		54/1 Bajaria Pakka Talab Etawah, UP.	Bahujan Samaj Party
9.	Vijay Pal Singh Tomar		35/1 Nehru Road, Meerut	Bharatiya Janata Party
10.	Sakal Deep		Vill. & Post- Vihra Harpur, Thana- Nagra, Tehsil- Belthara Road, Distt. Ballia	Bharatiya Janata Party
11.	Harnath Singh Yadav		Shantinagar, Etah	Bharatiya Janata Party

(ii) CANDIDATES OF REGISTERED POLITICAL PARTIES (OTHER THAN RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES) :- .....Nil

(iii) OTHER CANDIDATES: - ... Nil

PLACE: Lucknow

DATE: 15<sup>th</sup> March, 2018

Sd/

RETURNING OFFICER







**Form 7B**  
**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**  
[See rule 10 (1)]

**List of contesting candidates**

Election to the Council of States by the elected Members of the **West Bengal** Legislative Assembly.

S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation
1.	2.	3.	4.

(i) **CANDIDATES OF RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES: -**

1.	Dr. Abhishek Manu Singhvi		D-11, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan-342003	Indian National Congress
2.	Abir Ranjan Biswas		Vill. & P.O.- Chapri, P.S. _ Hanskhali, Dist.- Nadia-740151	All India Trinamool Congress
3.	Md. Nadimul Haque		12, Dargah Road, Kolkata-700017	All India Trinamool Congress
4.	Rabin Deb		FD-202, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106	Communist Party of India (Marxist)
5.	Dr. Santanu Sen		20, Hare Krishto Sett Lane, Block-H, Flat-2, Kolkata-700050	All India Trinamool Congress
6.	Subhasish Chakraborty		39, Mahatma Gandhi Road, P.O. & P.S. – Haridevpur, Kolkata-700082	All India Trinamool Congress

(ii) **CANDIDATES OF REGISTERED POLITICAL PARTIES (OTHER THAN RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES) :-.....Nil**

(iii) **OTHER CANDIDATES: - .....Nil**

PLACE: Kolkata  
DATE: 15<sup>th</sup> March, 2018

Sd/  
RETURNING OFFICER

[No. 318/CS-Multi/2/2018]

By Order,  
SUMAN KUMAR DAS, Secy.